



## परिवार का सहयोग प्राप्त होना

दत्तक ग्रहण को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है - स्वैच्छिक और अवैकल्पिक.

स्वैच्छिक में माता पिता अपनी इच्छा से बच्चा गोद लेना चाहते हैं, और अवैकल्पिक में वे बच्चा तब गोद लेते हैं जब कोई और विकल्प रहा नहीं जाता. समय के साथ, पहली श्रेणी में वृद्धि हुई है लेकिन इस श्रेणी में निकट परिवार, मित्र और सहकर्मियों का समर्थन अक्सर कम-से-कम पाया जाता है. इसका कारण यह है कि जहां माता-पिता गोद लेने को अंतिम उपाय के रूप में देखते हैं वहां किसी भी तरह अपने परिवार के सदस्यों का भी समर्थन मिलता है, क्योंकि गोद लेने को वहां सहानुभूति और अंतिम उपाय के तौर पर देखा जाता है. स्वैच्छा से गोद लेना रिश्तेदारों व मित्रों को समझना मुश्किल है क्योंकि बिना किसी दबाव के, कोई किसी बच्चे को गोस क्यों ले?

कारण कुछ भी हो, अक्सर माता पिता अपने निकट परिवार को गोद प्रक्रिया में शामिल करने से घबराते हैं क्योंकि

1. परिवार महसूस कर सकता है कि आप उनकी इच्छाओं की परवाह नहीं करते हैं, और दूर हो सकते हैं
2. ज्यादातर मामलों में, परिवार को कभी गोद लेने का अनुभव नहीं था। वे कई मिथकों और पूर्वाग्रहों का बोझ ढो रहे होते हैं, जैसा कि फिल्मों और उपन्यास से समझा गया है।
3. परिवार में बच्चे को अलग तरह से व्यवहार करने की संभावना है

किन्तु इन कारणों के बावजूद, निकट परिवारों का प्रक्रिया में शामिल होना ज़रूरी है. हमें यह समझना है कि दोस्त और रिश्तेदार वास्तव में गलत नहीं हैं - वे बस अनजान हैं. उनको प्रक्रिया में शामिल करना कई मिथकों को दूर कर देती है और उनके कई संदेहों को स्पष्ट करती है। बच्चे के लिए भी उनका प्रोत्साहन यादगार बन जात हिया, जिसे वह बड़ा हो कर याद करता है.

यदि आपको अपने निकट परिवार से सहयोग में समस्या आ रही हो, तो निम्न निदान अपनाएं :

- एक प्रमाणित सलाहकार से परामर्श प्राप्त करें
- अन्य परिवारों से मिलें जो आपका मार्ग दर्शन कर सकते हैं
- ऐसे पुस्तकें, साधन और चलचित्र देखा जिनसे अधिकांश भरन्तियाँ दूर हो सकें
- परिवार के साथ समय व्यतीत करें, उनको दूर न करें
- अगर बच्चा बहुत छोटा नहीं है, तो एक पारिवारिक छुट्टी ले जिसमे सब शामिल हो सकें

आपके सभी प्रयासों के बावजूद, अगर कुछ परिवार के सदस्य आशंकित या असहयोगी रहते हैं तो नुहे समय दे. बच्चा परिवार के प्रत्येक सदस्य के साथ अपना रिश्ता बना लेता है. हमें जागरूक होना चाहिए कि बच्चा एक वास्तविक दुनिया और परिवार के लिए घर आता है। सभी को शामिल करना बच्चे के विकास के लिए आवश्यक है.